

5771

गोपीनाथ तिवारी

भारतेन्दु
के
नाटकों
का

शास्त्रीय अनुशीलन

अनुक्रम

पूर्व भारतेन्दुयुगीन नाटक	६
भारतेन्दुकालीन नाटक	१८
भारतेन्दुजी की नाट्यकला	४६
भारतेन्दुजी के नाटक	८५
प्रवास	८६
रत्नावली	८७
विद्यासुन्दर	८८
पाखंडविडम्बन	९५
वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति	९९
धनंजय विजय	११०
मुद्राराक्षस	११३
सत्य हरिश्चन्द्र	१३५
प्रेमजोगिनी	१६५
विषस्य विषमौषधम्	१६८
कपूर् रमंजरी	१७७
चन्द्रावली	२०४
भारत दुर्दशा	२५०
भारत जननी	२७६
नीलदेवी	२८०
दुर्लभ बन्धु	२९१
अंधेर नगरी	२९७
सती प्रताप	३०६